

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. के साथ साझेदारी की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ऐसा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर विकसित करके, एक चिंतनशील और प्रभावशाली बदलाव कर रही है, जो ग्लोबल कारोबारों के लिए अवसरों से भरपूर हो। आज, सिटी ने ब्रैम्पटन में *लॉन्चपैड प्रोग्राम (Launchpad program)* स्थापित करने के लिए, भारत (India) की नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसिज कंपनीज (एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम.) (National Association of Software and Services Companies) (NASSCOM) के साथ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ब्रैम्पटन एकमात्र कॅनेडियन शहर है, जो इस प्रोग्राम के विस्तार के लिए चुना जाएगा।

इस साझेदारी के द्वारा, *लॉन्चपैड प्रोग्राम*, भारत सरकार और लोकल टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टमों के बीच संबंधों को बढ़ाकर, इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (आई.टी.) (Information Technology) (IT) कंपनियों के ग्लोबल विस्तार के लिए कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगा। इस साझेदारी के द्वारा, *लॉन्चपैड प्रोग्राम*, भारत सरकार और लोकल टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टमों के बीच संबंधों को बढ़ाकर, इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (आई.टी.) (Information Technology) (IT) कंपनियों के ग्लोबल विस्तार के लिए कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगा। प्रोग्राम में साझेदारों को भिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियमों, टैक्स नियोजन और प्रोत्साहन से सहायता के साथ, विदेशी बाजारों में काम करने के लिए पहुंच में सुधार होगा।

[ब्रैम्पटन BHive \(Brampton BHive\)](#) – डाउनटाउन ब्रैम्पटन में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग पैड – प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली आई.टी. (IT) कंपनियों के लिए मुख्य कार्यालय के तौर पर काम करेगा।

### नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसिज कंपनीज (एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम.)

एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. (NASSCOM), भारत में प्रीमियर ट्रेड संस्था और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसमें भारतीय और भारत में मौजूदगी वाले मल्टीनैशनल संगठनों, दोनों सहित, 3,000 से अधिक मेम्बर कंपनियां हैं। इसकी मेम्बरशिप, इंडस्ट्री के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में फैली हुई है, स्टार्ट-अप्स से लेकर मल्टीनैशनल और उत्पादों से सेवाओं, ग्लोबल सर्विस सेंटरों से इंजीनियरिंग फर्मों तक।

### ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में

डाउनटाउन ब्रैम्पटन में स्थित, [इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट \(Innovation District\)](#) स्पष्ट ध्यान, स्टार्ट-अप स्केलिंग, निवेश आकर्षण और प्रतिभा विकास पर है और यह उद्यमियों और नए कारोबारों के लिए लोकल सहायता प्रदान करता है। यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों को, उनके काम को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए संसाधन भी पेश करता है।

2019 में समझौते शुरू करके, सिटी ने अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों के द्वारा किए जा रहे निवेशों में, लगभग 55.2 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ, लगभग 20.5 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्धता की है।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों में शामिल हैं, उद्यमी, बिजनेस इन्क्यूबेशन, पोस्ट-सेकंडरी ट्रेनिंग और एक्स्लरेटर जगहें, जैसे ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton), टोरोंटो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी-संचालित वेंचर ज़ोन (Toronto Metropolitan University-led Venture Zone), अल्टीट्यूड एक्स्लरेटर (Altitude Accelerator), फाउंडर इंस्टीट्यूट (Founder Institute), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) और रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट हेडक्वार्टर्स एंड एक्स्लरेटर (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator)। शेरिडन एज (Sheridan Edge), ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में महत्वपूर्ण साझेदार हैं।

### **ब्रैम्पटन BHive के बारे में**

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में स्थित BHive, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा प्रायोजित एक पहलकदमी है, जिसका लक्ष्य इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को सशक्त करना, उनके सफर की गति तेज़ करना और उद्यमियों, अर्थव्यवस्था तथा पूरी कम्युनिटी के लिए सकारात्मक असर पैदा करना है। टोरोंटो बिजनेस डिवेलपमेंट सेंटर (Toronto Business Development Centre) के सहयोग से स्थापित, BHive का उद्देश्य स्टार्ट-अप वीजा प्रोग्राम (Start-up Visa Program) के द्वारा, उन विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करना है, जो कैंनेडा में नए और विकसित होने योग्य कारोबार स्थापित करना चाहते हैं। सफल आवेदकों को उनकी स्थायी रिहायश प्रदान की जाएगी और उनके 6 माह के इनक्यूबेशन प्रोग्राम के दौरान, उन्हें कार्यालय की जगह, नेटवर्किंग अवसरों और कारोबार में सहायता संबंधी सेवाओं सहित, कई संसाधन प्रदान किए जाएंगे।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.bramptoninnovationdistrict.com](http://www.bramptoninnovationdistrict.com) पर जाएं या इस इनोवेशन ईकोसिस्टम के प्रभावों को उजागर करने वाला, सिटी का [वीडियो \(video\)](#) देखें। BHive के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [thehive.ca](http://thehive.ca) पर जाएं।

### **हवाले**

“इस संपूर्ण टर्म के दौरान, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने ब्रैम्पटन को इनोवेशन में लीडर और निवेश करने की मुख्य जगह के तौर पर आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करके, हम लोकल आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए, ब्रैम्पटन की प्रोफाइल को ग्लोबल तौर पर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हमारे साझेदारों के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“लोकल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार सहयोग के द्वारा, ब्रैम्पटन का इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, उन संसाधनों और सेवाओं तक बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करने की बेजोड़ स्थिति में है, जो लोकल उद्यमियों और कारोबारियों को संपन्न होने में मदद करते हैं। यह साझेदारी, उस कार्य को और तेज करेगी, जो हमने डाउनटाउन ब्रैम्पटन में इनोवेशन और उद्यमी ईकोसिस्टम बनाने के लिए, अब तक किया है।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी को एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. के व्यक्तिगत प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करके और हमारे बढ़ रहे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के मुख्य साझेदारों के साथ मुलाकात करने का अवसर मिलने की बहुत खुशी हुई, जब हम लगातार शहर को दुबारा खोल रहे हैं। लगातार निवेश और इकट्ठे मिलकर काम करने के द्वारा, हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो ब्रैम्पटन को इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करता है।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. जैसे साझेदारों के साथ, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में कारोबारियों को संपन्न होने के लिए आवश्यक टूल्स और संसाधन प्रदान करने के लिए, लगातार अपने ईकोसिस्टम में वृद्धि कर रहा है। ग्लोबल साझेदारियों और साझे ज्ञान और बेहतर पद्धतियों का लाभ लेकर, ब्रैम्पटन, निवेश करने हेतु कारोबारियों के लिए एक बेमिसाल ठिकाना बन रहा है।”

- *क्लेयर बार्नेट (Clare Barnett), डायरेक्टर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)